



## RBI ने ARC के लिये संशोधति 'मास्टर अनुदेश' जारी किये

[स्रोत: लाइव मटि](#)

### चर्चा में क्यों?

[भारतीय रजिस्ट्रार बैंक \(RBI\)](#) ने 'मास्टर अनुदेश - भारतीय रजिस्ट्रार बैंक (परसिंपत्त पुनर्रनिमाण कंपनियों-ARC) नरिदेश, 2024' को संशोधति किये है।

- **ARC** के लिये संशोधति मानदंडों का उद्देश्य परचालन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना और नपिटान प्रक्रियाओं में उचित परशिरम पर ज़ोर देना है।

### ARC पर RBI के संशोधति मास्टर अनुदेश के मुख्य बदि क्या हैं?

- **बोर्ड-अनुमोदति नीति:** प्रत्येक [परसिंपत्त पुनर्रनिमाण कंपनी \(ARC\)](#) को उधारकर्ताओं के बकाये के नपिटान के लिये बोर्ड-अनुमोदति नीति स्थापति करनी चाहिये, जिसमें वभिन्न प्रमुख तत्व शामिल होंगे जैसे:
  - एकमुश्त नपिटान की पात्रता हेतु अंतिम तिथि।
  - नपिटान राशति करते समय वभिन्न श्रेणियों के लिये अनुमेय त्याग।
  - प्रतभूति के प्राप्ति योग्य मूल्य के मूल्यांकन की पद्धति।
- **नपिटान प्रक्रिया:** पुनर्रप्राप्ति के सभी वकिलों का पता लगाने के बाद ही नपिटान पर वचिर किये जाना चाहिये।
  - अधिमिनतः, नपिटान राशति का भुगतान एकमुश्त (एकमुश्त भुगतान) किये जाना चाहिये।
  - गैर-एकमुश्त भुगतान योजनाओं को व्यवसाय मॉडल, उधारकर्ता नकदी प्रवाह और अनुमानित आय के साथ संरेखति होना चाहिये।
- **स्वतंत्र सलाहकार समति (IAC):** तकनीकी, वत्तीय या कानूनी विशेषज्ञों वाली एक IAC को नपिटान प्रस्तावों की समीक्षा करनी चाहिये तथा ARC की बोर्ड समति को सलाह देनी चाहिये।

### ARC क्या हैं?

- **ARC:** ARC एक वशिष प्रकार का वत्तीय संस्थान है जो बैंकों और वत्तीय संस्थानों से [गैर-नषिपादति परसिंपत्तियों \(NPA\)](#) खरीदता है तथा ऋण या संबंधति प्रतभूतियों की वसूली का प्रयास करता है।
- **ARC की पृष्ठभूमि:** ARC की अवधारणा [नरसमिहम समतिनि। \(1998\)](#) द्वारा पेश की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वत्तीय आसतियों के प्रतभूतिकरण और पुनर्रनिमाण तथा प्रतभूति हति प्रवर्तन अधनियिम, 2002 (SARFAESI अधनियिम, 2002) के तहत ARC की स्थापना हुई।
- **ARC का पंजीकरण और वनियिमन:** ARC कंपनी अधनियिम, 2013 के तहत पंजीकृत है तथा इसे [SARFAESI अधनियिम, 2002](#) की धारा 3 के तहत RBI के साथ भी पंजीकृत होना चाहिये।
  - यह SARFAESI अधनियिम, 2002 के तहत कार्य करता है तथा RBI द्वारा जारी दिशा-नरिदेशों का पालन करता है।
- **ARC की कार्यप्रणाली:**
  - **परसिंपत्त पुनर्रनिमाण:** इसमें वसूली के लिये बैंक या वत्तीय संस्थान के ऋण, अग्रिम, बॉण्ड, गारंटी या अन्य ऋण सुवधियों के अधिकार प्राप्त करना शामिल है, जिसे 'वत्तीय सहायता' के रूप में जाना जाता है।
- **प्रतभूतिकरण:** इसमें योग्य खरीदारों (QB) को प्रतभूति रसीदें जारी करके वत्तीय परसिंपत्तियों का अधगिरहण करना शामिल है।
  - QB में बीमा कंपनियों, बैंक, राज्य वत्तीय नगिम, SARFAESI के तहत ARC और सेबी-पंजीकृत परसिंपत्त प्रबंधन कंपनियों शामिल हैं।
- **प्रतभूति रसीद:** ARC ऋणदाताओं को प्रतभूति रसीदें जारी करते हैं, जो ऋण वसूली पर मोचनीय (Redeemable) होती हैं, प्रबंधन शुल्क लेते हैं, तथा वसूली लाभ को वकिर्य करने वाले वत्तीय संस्थानों के साथ साझा करते हैं।

### गैर-नषिपादति परसिंपत्त (NPA)

- **NPA:** NPA वह ऋण है जिससे **NPA** के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण भुगतान **90** दिनों के अधिक अवधि के लिये अतदिय हो गया हो।
  - कृषि के लिये, यदि दो फसल मौसमों तक मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- **प्रकार:** बैंक गैर-नषिपादन की अवधि और वसूली की संभावनाओं के आधार पर NPA को **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत करते हैं।
  - **अवमानक परसिंपत्तियाँ:** **12 माह या उससे कम** अवधि की NPA।
  - **संदिग्ध परसिंपत्तियाँ:** **12 माह से अधिक** अवधि की NPA।
  - **हानि परसिंपत्तियाँ:** ऐसी अप्राप्य परसिंपत्तियाँ जिनकी **वसूली की संभावना बहुत कम या असंभव है**, तथा जिनमें पूर्ण रूप से बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

**प्रश्न.** निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परसिंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेचड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017)

- (a) यह सरकार द्वारा नरूपित विकासपरक योजनाओं की पारस्थितिकी कीमतों पर विचार करने की पद्धति है।
- (b) यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक की स्कीम है।
- (c) यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की वनिविश योजना है।
- (d) यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वति 'इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्टसी कोड' का एक महत्त्वपूर्ण उपबंध है।

**उत्तर: (b)**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rbi-issues-revised-master-direction-for-arcs>

